



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 341] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 31, 1979/कार्तिक 9, 1901  
No. 341] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 1979/KARTIKA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1979

सा. का. नि. 605(अ).—केंद्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खण्ड (45) के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'कम्पनी (सचिव की अहंताएं) नियम, 1975 में और संशोधन करने के लिए, निम्न-लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम कम्पनी (सचिव की अहंताएं) संशोधन नियम, 1979 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।



2. कम्पनी (सचिव की अर्हताएं) नियम, 1975 के नियम 2 के खण्ड (क) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि कम्पनी (सचिव की अर्हताएं) संशोधन नियम, 1979 के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि तक, ऐसी कम्पनी का कोई ऐसा कर्मचारी, जिसे सचिवीय कर्तव्यों के पालन और सचिवीय कृत्यों के निर्वहन का काम से कम दस वर्ष की अवधि का अनुभव है, उस कम्पनी के सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र होगा ;” ।

[फा. सं. 5/4/79-सी. एल.-5]

ए. नीलकन्तम, संयुक्त सचिव

<sup>1</sup>टिप्पण : कम्पनी (सचिव की अर्हताएं) नियम, 1975, 7 मार्च, 1979 को अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 144 (इ), दिनांक 7 मार्च, 1979 को अधिसूचित किया गया तथा 7 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (1) में प्रकाशित हुआ ।

# MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1979

**G.S.R. 605(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 642, read with clause (43) of section 2, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Secretary's Qualifications) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Secretary's Qualifications) Amendment Rules, 1979.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In clause (a) of rule 2 of the Companies (Secretary's Qualifications) Rules, 1975, the following proviso shall be added to the end, namely :—

“Provided further that for a period of three years from the commencement of the Companies (Secretary's Qualifications) Amendment Rules, 1979, an employee of such a company having experience of performing secretarial duties or discharging secretarial functions for a period of not less than ten years in a company shall also be eligible to be appointed as secretary of that company;”.

[F. No. 5/4/79-C.L.V.]

A. NEELAKANTAN, Jt. Secy.

<sup>1</sup>Note : The Companies (Secretary's Qualifications) Rules, 1975 were notified on the 7th March, 1979—vide Notification No. G.S.R. 144(E), dated the 7th March, 1979—Published in Part II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India Extra-ordinary dated 7-3-1975.